



HAMIRPUR POLICE



:: मिशन शक्ति वृहद जागरूकता कार्यक्रम ::

हमीरपुर 18 अक्टूबर 2020

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं /बालिकाओं की सुरक्षा ,सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु आज जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

इसी क्रम में आज सर्वप्रथम देवी मंदिरों में एंटी रोमियो दल द्वारा सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । जनपद के समस्त ग्राम एवं कस्बों में लैंगिक संवेदीकरण एवं लैंगिक हिंसा की रोकथाम के विषय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए । इसके अतिरिक्त पोक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों का यौन हिंसा से बचाव ,सहायता, पुनर्वास एवं शिक्षा तथा हिंसा करने हेतु दंड प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार नगरीय निकायों में किया गया। ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। एलईडी वैन के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों ,कानूनों ,योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

इसी प्रकार मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी /विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में नारी सुरक्षा ,सम्मान, स्वावलंबन विषयक एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन महिला थाने में किया गया । इस गोष्ठी में 1090 वूमेन पावर लाइन ,181 महिला हेल्पलाइन ,1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस सहायता, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी तरह की समस्या पर इन हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। उपस्थित महिलाओं को महिलाओं के उत्थान हेतु केंद्र व प्रदेश सरकार की संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा महिला सुरक्षा अधिनियम प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया ।





HAMIRPUR POLICE



जनपद के समस्त विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग कल दिनांक 19 अक्टूबर से विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में मीटिंग की गयी मीटिंग में विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया साथ ही विद्यालयों के प्राचार्यों को जिलाधिकारी हमीरपुर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा कि महिलाओं/ बालिकाओं के सम्मान ,सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति से के अंतर्गत जनपद के सभी विद्यालयों को कवर किया जाएगा तथा उसमें पढ़ने वाली छात्राओं तथा शिक्षिकाओं को महिलाओं / बालिकाओं के अधिकारों /प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा।





HAMIRPUR POLICE



::एंटीरोमियों चेकिंग एवं "मिशन शक्ति" जागरूकता अभियान::

आज दिनांक 18/10/2020 को जनपद हमीरपुर के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/धार्मिक स्थलों/प्रमुख चौराहों के आस-पास में एंटीरोमियों चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लडकों/शोहदों की चेकिंग की गयी साथ ही एंटीरोमियो टीमों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव/कस्बे एवं सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं/छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई व मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/112 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाइन 1090 यूपी कॉप/पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया।

